

[This question paper contains 4 printed pages.]

Your Roll No.....

Sr. No. of Question Paper : 5068

L

Unique Paper Code : 2274000015

Name of the Paper : Sectoral Issues in Indian Economy

Name of the Course : Common Pool GE Economics

Semester : IV/VI/VIII

Duration : 3 Hours

Maximum Marks : 90

Instructions for Candidates

1. Write your Roll No. on the top immediately on receipt of this question paper.
2. Answers may be written in either English or Hindi, but the same medium should be used throughout the paper.
3. The question paper consists of **eight** questions. Answer any **five** questions.
4. **All** questions carry equal marks, **18** marks each.

1. Examine the trends in real farm income growth in India from 1983-84 to 2011-12. Discuss how misinterpretation of partial indicators, such as rising input prices, slow output growth, rising wages, or indebtedness, can lead to erroneous conclusions about declining farm income. (18)
2. Analyse the policy reforms, institutional coordination, and agricultural diversification needed to achieve transition from food security to nutrition security. (18)

P.T.O.

3. Discuss the rationale for shifting the focus of agricultural growth and procurement from the traditional “Green Revolution” states to Eastern India. What are the ecological and economic arguments supporting this shift? (18)
4. Evaluate the three-pronged strategy of growth, inclusiveness, and sustainability required to address the demographic pressures on Indian agriculture. (18)
5. Examine the validity of the question “Is there less krishi (agriculture) in Bharat (rural India)?” by analysing the decoupling of rural livelihoods from traditional farming. (18)
6. The traditional export-led growth strategy, which proved successful for several Asian economies, is increasingly being questioned in the context of changing global economic conditions. Critically examine the relevance of this strategy for India in the post-2014 global scenario. (18)
7. Assess the role of the Production Linked Incentive (PLI) schemes and the PM GatiShakti National Master Plan in driving the next phase of ‘Make in India’. (18)
8. Write comprehensive notes on any two of the following : (2×9=18)
 - (a) Government initiatives to enhance agricultural growth.
 - (b) Startup India Kit (2023).
 - (c) National Food Security Act (2013).

1. 1983-84 से 2011-12 तक भारत में वास्तविक कृषि आय वृद्धि के रुझानों का विश्लेषण कीजिए। चर्चा कीजिए कि कैसे आंशिक संकेतकों, जैसे कि बढ़ती इनपुट कीमतें, धीमी उत्पादन वृद्धि, बढ़ती मजदूरी या ऋणस्तता, की गलत व्याख्या से कृषि आय में गिरावट के बारे में गलत निष्कर्ष निकल सकते हैं। (18)
2. खाद्य सुरक्षा से पोषण सुरक्षा की ओर संक्रमण प्राप्त करने के लिए आवश्यक नीतिगत सुधारों, संस्थागत समन्वय और कृषि विविधीकरण का विश्लेषण कीजिए। (18)
3. कृषि विकास और खरीद का ध्यान पारंपरिक 'हरित क्रांति' वाले राज्यों से पूर्वी भारत की ओर स्थानांतरित करने के औचित्य पर चर्चा कीजिए। इस बदलाव के समर्थन में पारिस्थितिक और आर्थिक तर्क क्या हैं? (18)
4. भारतीय कृषि पर जनसांख्यिकीय दबावों से निपटने के लिए आवश्यक विकास, समावेशिता और स्थिरता की त्रिपक्षीय रणनीति का मूल्यांकन कीजिए। (18)
5. 'क्या भारत (ग्रामीण भारत) में कृषि कम है?' प्रश्न की वैधता की जांच कीजिए। पारंपरिक कृषि से ग्रामीण आजीविका के अलगाव का विश्लेषण करके। (18)
6. कई एशियाई अर्थव्यवस्थाओं के लिए सफल साबित हुई पारंपरिक निर्यात-आधारित विकास रणनीति पर बदलती वैश्विक आर्थिक परिस्थितियों के संदर्भ में Increasingly सवाल उठ रहे हैं। 2014 के बाद के वैश्विक परिदृश्य में भारत के लिए इस रणनीति की प्रासंगिकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। (18)
7. 'मेक इन इंडिया' के अगले चरण को गति देने में उत्पादन-संबंधी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाओं और पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान की भूमिका का आकलन कीजिए। (18)

8. निम्नलिखित में से किन्हीं दो पर विस्तृत टिप्पणी लिखिए :

(2×9=18)

(क) कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकारी पहल

(ख) स्टार्टअप इंडिया किट (2023)

(ग) राष्ट्रीय स्वाद्य सुरक्षा अधिनियम (2013)